



Date: December 11, 2024

To,
Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisements giving details of dispatch of notice of postal ballot and voting period.

Ref: Kataria Industries Limited (Symbol: KATARIA, ISIN: INE0SVY01018)

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Newspaper Advertisements giving details of dispatch of notice of postal ballot and voting period.

We request you to kindly take the same on records please.

Thanking you

For Kataria Industries Limited

Arun Kataria Managing Director DIN: 00088999

**Place:** Ratlam **Enclosed:** A/a.

# **Kataria Industries Limited**

**SAT stays** Sebi order

on Trafiksol's

public issue

# Sebi broadens scope of T+0 settlement to top 500 stocks

■ Operational

Sebi move on

THE SECURITIES AND

THE SECURTIES AND Exchange Board of India (Sebi) on Tuesday expanded the scope of same-day settlement cycle (T+0) to the top 500 stocks in a phased manner. The same-day settlement cycle will continue to be options. Currently, only 25 stocks are available for the T+0 settlement. The beta version of the settlement cycle was launched in March this year, but has seen a subdued response from the industry. industry.
"The scrips shall be made

"The scrips shall be made available for trading and set-tlement starting with scrips at the bottom 100 companies and gradually include the next bottom 100 companies every month until the top 500 companies are available for trading in the optional T+0 settlement cycle," the regulator said in a circular.

The increase in number of The increase in number of eligible stocks will become effective on January 31, 2025, for which market capitalisation will be computed as of December 31. These 500 will be in addition to the existing 25 stocks, and brokers will be permitted to charge a differential brokerage for the facility. Qualified stock brokers, or

💠 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

#### **REGULATORY MOVES**

■The same-day settlement cycle will continue to remain optional ■The increase in number of eligible stocks will become effective on January 31, 2025, for which

market capitalisation will be computed as of December 31



large brokers, have to put in large brokers, have to put in place processes and systems for smooth implementation by May 2025. Further, a block deal window from 8:45 am to 9:00 am for the T+0 settlement cycle will also be in place from May 2025.

#### Easier norms for NRI trading in derivatives proposed

To improve operations of improve operational efficiency for non-resident Indians (NRIs) trading in exchange-traded derivatives contracts, Sebi has proposed simplifying the process by doing away with the requirement for NRIs to notify names

of clearing members.
At present, NRIs are required to notify and obtain a custodial participant (CP) code from the clearing corporation (CC) through a clearing member (CM). Further, Sebi has allowed NRI to deal with one CM at a time. Existing CP codes have to be discontinued within a sunset period of one year from the date of issuance of this circular or till squaring up of existing positions,

this circular of tuil squaring up of existing positions, whichever is longer, Sebi said. Sebi has also introduced use of the permanent account number (PAN) as a unique identifier in the securities market, which removes the requirement for a CP code.

## Sebi proposes DigiLocker

Sebi on Tuesday proposed leveraging DigiLocker, a gov-ernment-backed digital docu-ment storage platform, to streamline processes and min-imise unclaimed assets in the securities market. In its con securities market. In its con-sultation paper, the regulator has proposed that depositories and mutual funds should pro-vide demat and mutual fund holding statements on Dig-iLocker. Further, it has been suggested that KYC regista-tion agencies should share information on an investor's demise with Digil.ocker.

# Burmans get RBI nod for Religare open offer

FE BUREAU Mumbai, December 10

THE RESERVE BANK of India THE RESERVE BANK of India (RBI) has approved the Bur-man family's open offer to acquire an additional 26% stake in Religare Enterprises, subject to several conditions 310 287.95 300 such as coming up with a con-solidation plan within 90 days, maintaining the current management structure and not appointing new directors

rnow. Shares of Religare Enterprises closed up 3.76% at ₹288.05 on the BSE.

\$288.05 on the RSE.
"The acquirers are advised
to submit a concrete and specific consolidation plan, with
specific timelines, duly supported by board resolutions
from each of the NBFCs within
the groups, within 90 days
from the date of this communication, 'said the letter sent by
the RBI to Religare.
The Burman family, major-

### **STOCK RISES**

Religare Enterprises Intra-day on BSE (₹), Dec 10



ity stakeholder in Religare and itystakeholder in Religare and the promoters of consumer major Dabur, had announced plans to acquire an additional 26% stake for ₹2,116 crore, through four of its entities.

The Religare board and executive challergers on Rashmi Saluja has opposed the open offer, questioning the valuation of the offer and arguing

that the Burman family was not 'fit and proper' to under-take the acquisition.
The RBI's approval, which is valid for one year, largely clears the path for the Burmans to take control of Religare Entertake control of Religare Enter-prises pending approval from the Securities and Exchange Board of India (Sebi). The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) had submitted its no-objection a month ago, as part of the Securities Appellate Tribunal's (SAT) direction to get ago ahead from the three regulators for the open offer. The central bank has also rejected Burmar's request for

The central bank has also rejected Burman's request for appointing directors Arjun Lamba, Abhay Agarwal, Ramanathan Gurumurthy, and Suresh Mahalingam, and has asked to submit the names of proposed directors along with the board resolution, after ensuring that they are 'fit and proper'.

AKSHATA GORDE Mumbai, December 10 THE SECURITIES APPELLATE

THE SECORITIES APPELLANE Tribunal (SAT) has stayed the order of the Securities and Exchange Board of India(Sebi), cancelling the initial public offering (IPO) of SME entity Trafiksol ITS Technologies and asking it to refund \$44.87 crore raised to investors within continuous and the security of the sec one week. "BSE to inform bankers to

not refund the money until further orders," said a bench led by justice Dinesh Kumaron Monday. The matterwas partly heard and will continue on Wednesday

Monday, The matter was party heard and will continue on Wednesday. Trafiksol, a traffic systems software provider, had contested Selvis directive to refund the funds by Tuesday, distribute accrued interest to investors, and cancel the shares allotted with the IPO. The public offer, which was head from September 17-12, was subscribed 345 times. However, on September 17-16, was subscribed 345 times. However, on September 17-16, the SE and Selvi halted Trafiksol's listing on the SME platform after complaints surfaced regarding the intended use of IPO proceeds. The regulator raised concerns over the use of nearly 40% of the issue proceeds, which were allocated to purchase software from a third-party vendor. Selvi sinestigation concluded in evendor was a shell entity, raising sueptions a bour the linvolvement of Trafiksol and its managing director in con-

picions about the involve-ment of Trafiscol and its managing director in con-cealing a fraud.

Trafiscol's counsel argued that Sebi went on an overdrive with the quotation when there was no definitive agreement with the vendor. Further, the prospectus had explicitly said that this was only a vendor's quote that was not binding.

"The quotation was not a purchase order or acquisition. For the actual purchase, we may approach any other ven-dors for negotiations," the lawyer said.

The company proposed allowing the IPO to proceed under strict monitoring of the use of issue proceeds to pre-vent fund misuse. However, in its order, Sebi rejected the sub-mission as the regulator is yet.

mission as the regulator is yet to adjudicate other findings, including alleged false finan-cial statements.

## **HDFC Bank** takes huge office space on lease in Navi Mumbai

RAGHAVENDRA KAMATH Mumbai, December 10

HDFC BANK HAS leased 416,000 sqft of office space in the Gigaplex complex, located in the Mindspace property of K Raheja Corp in Airoli, Navi Mumbai, for a period of 10

The banking major will pay an annual rent of ₹24 crore, equivalent to a monthly rent of ₹2 crore (₹49 per sq ft), according to documents accessed via Propstack. The agreement comprises two leases—one for 197,877 sq ft and the other for 218,217 sq ft—and includes provisions for 322 car parking provisions for \$22 car parking spaces. The lease terms feature a rental escalation clause of 15% every three years. The documents reveal that HDFC Bank paid a security deposit of ₹12.23 crore. The

lease agreement was regis-tered on November 13, and the tered on November 13, and the lease will commence on Janu-ary 1. Sources said that the office space is likely to be used for IT/ITES operations. Neither HDFC Bank nor K Raheja Corp responded to requests for com-ment.

# Kotak sets Nifty's 2025 target at 26,100

AKSHATA GORDE Mumbai, December 10

BROKERAGE HOUSE KOTAK Securities expects the Nifty50 to reach 26,100 by December 2025 as its base case scenario, while maintaining a "cau-tiously optimistic" stance on the markets. Shripal Shah, MD & CEO, said, "While we remain confi-

Date: 10,12,2024 Place: Pitamoura Delh

dent in India's long-term growth potential, we advise investors to approach the mar-ket with a degree of cautious optimism. Long-term investors should focus on qual-

CAN FIN HOMES LTD.

NCR Pitampura Branch - DP-11, Ist Floor, Local Shopping Complex, Pitampura, Delhi-110 034 014
1787177 Mobile: 7625079150, Email: pitampura@canfinhomes.com, IONL85110KA1987PLC0086

investors should focus on qual-ity assets amidst rich valua-tions. Geopolitical tensions, protectionist trade policies, and persistent inflation are notable risks." The brokerage said it expects India's macro-

Kumar (Borrower)
Rib H. No. D-689, Block-D, Indragrashth
Assays Colony, Evaluation Colony, Long
Prince Colony, Region Long, Ghazalabad,
Prince Colony, Region Long, Ghazalabad,
Prince Colony, Region Long, Ghazalabad,
Prince Colony, Region Long, Colony, Long, Long,

KATARIA INDUSTRIES LIMITED

CIN: U27300MP2004PLC029530 Registered Office: 34-38 and 44, Industrial Area, Ratiam (M.P.)- 457001 Email: cs@katariagroup.co.in; Web: www.katariaindustries.co.in;

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE OF POSTAL BALLOT

MOTECTS I sereity given, in accordance with the provisions of extention 10 and their applicable provisions. It any of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Public 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) of the Companies (Management and Administration) and the Companies (Management and Administration) and the Companies (Management and Administration) and other applicable levex and regulations, that the approval of members of Katasir Industries Limited ("The Company") is being sought for Special Bianess as stated in Notice of Postal Bailot dated December 06, 2024, through remote electronic voting (remote e-voting) by following the Process of postal bailot and Remote C-Voling.
In accordance with General Circular Nos. 14/2020 dated 81 April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 22/2020 dated 31th June 2020, 33/2020 dated 31th September 2020, 33/2020 dated 31th December 2020, 10/2021 dated 23th June 2021, 33/2020 dated 31th September 2024 april 2021, 20/2022 dated 38th December 2022, 10/2022 dated 38th December 2022, 10/2022 dated 23th June 2021, 33/2020 dated 31th September 2024 of the MMA Circulars, the Company and benefits of the Company an

would take place through the remote + oning system only.

In high of the MAG Charlas, for remote + oning or bits postal belief, the shareholders whether holding equity shares in dented from or physical from and with base not submitted their email addresses and in consequence to whom the remote evolution roles could not be serviced, may emproperally get their -formal addresses registered with the Company, where I in case stares are held in physical mode, please provide Fello Ne. Name of shareholder, scanned copy of the stare conflicted (from an abuse), Pall (self-latered scanned copy of PAL carls, ALAHAR (self-attended scanned copy of ALA carls, ALAHAR (self-attended scanned copy of ALAHAR (self-attended scanned copy of ALAHAR (self-attended scanned copy of Rest and the scanned copy of ALAHAR (self-attended scanned copy

Commany agents of the commany relations and the commany of the com

stock exchange, registrar and share transfur agent and e-voting agency.

Wember who does not received the Postal Ballott Notice may gend an e-mail to cselkatariagroup, co. in or may apply to
NSDL at evolting@msdl.com and obtain a copy of Postal Ballott Notice. The Postal Ballott Notice can also be downloaded
NSDL at evolting@msdl.com and obtain a copy of Postal Ballott Notice. The Postal Ballott Notice can also be downloaded
NSDL at evolting@msdl.com.
App usery@riovance.with respect to the volting by remote electronic means may please be addressed to Mr. Arun Kataria
Managing Director, Kataria Industries Limited at 34-38 and 44. Industrial Area, Ratlam, Madilya Pradesh. 45700 or ar
Email Cr. cellskatariagoryou, co. Lone 1917-1742 239407 to 8 it and the Company of the terisor disciplinate electrical responses.

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manua or Shareholders available at the download section of www.evoling.nsdl.com or call on toll free no. 1222—4885 7000 or end a request at exhoring@firsdl.com.
For, Kataria Industries Limited

economic situation to improve in the coming quarters, with inflation seen cooling, a pick-up in government spending, and festival consumption to boost corporate earnings. These improving macroeconomic factors are expected to revive the EOP, which, in turn, are expected to support equity markets during uncertainties, Kotak Securities said.

K

Rs. 22,11,513/-

Regional Office Delhi (South)

And Floor, Schall Bhawar, 4/54, D.B.

A

EAuction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, 2002. read with provisto a Rule (6) & 21 of 10 the Security Interest, Enforcement, Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property mortipaged / charged in this Central Bank of India (secured creditors), will be sold on "As is where is.", "As is what is "and "whatever there is" basis on date 28.12.2024 for recovery of dues to the Central Bank of India (service and Earnest money deposit (EMD)) is displayed against the details of respective properties.

EVAUCTION SCHEDULED TO BE HELD ON 26.12.2024 (15 DAYS NOTICE)

RESIDENT.

5. No.	Name of Branch	Authorised Officer / B.M.	Name of the Account	Description of Property & Owner Name	Demand Notice Date & Amount Dues (Rs. in Lakh)	Date & Type of Possession	Reserve Price EMD Bid Increas
1.	Janpath	Mr. Sushil	Mr Mahindra Kumar,	Plot no E-649 (Old No.13), Out of Khasara no 30/21,	Rs.30,23,089/-	11,05,2017	₹ 39.38 Lac
*	New Delhi	M. No. 9999917105	Mr.Lalit Kumar & Mrs. Seema	Mauza Saran, Dabua Colony, Faridabad, Measuring	on 29.10.2016 + Interest thereafter	(Physical)	₹ 3.94 Lac
				Land Area of 250 sq yard . in name of Mr. Lalit Kumar & Mr. Mahinder Kumar			₹ 0.30 Lac
2.	Jasola New Delhi	Mr. Rajesh Niraj Mobile:	Mr. Pritpal Singh & Mrs Manpreet Kaur	Entire Third Floor with Roof/Terrance Rights, being a part	on 29.10.2019 + Interest thereafter	06.07.2022 (Physical)	₹ 43.00 Lac
				of Free Hold Property being No.WZ-III-B/10, Portion of Plot No.B-10 & B-11. Built on area measuring 104 sq.yds			₹ 4.30 Lac
		8447633471		Approx. Out of rectangle No. 31, Killa No 15/1, Situated			₹ 0.50 Lac
				in the area and revenue estate of Village Khyala, Vishnu			
				Garden, New Delhi-110018 Measuring Area 842 sq.ft			
				in the name of Mrs. Manpreet Kaur W/o Mr. Pritoal Singh			
3.	Gulmohar Park, New Delhi	Ms. Sneh Mirchandani M. No. 8448296394	Mr Praveen Choudhary	RZ-750/23, Gali No 23, First Floor, Khasra No 443/2,	on 30.09.2020	14.09.2022 (Physical)	₹ 31.00 La
-0				Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019, carpet			₹ 3.10 Lac
				area 83.34 sq.mt ,owner Mr Praveen Choudhary S/o Shri A K Choudhary			₹ 0.30 La
4.	Gulmohar	Ms. Sneh	Mrs Nirmala &	RZ-750, Gafi No 23, Second Floor Right side,	Rs.24,99,273/-	03.09.2022	₹ 16.00 La
7	Park, New Delhi	Mirchandani M. No.	Mr. Avtar Singh	Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019 carpet area		(Physical)	₹ 1.60 Lac
				448.53 sq.ft, Owner Mrs Nirmala			₹ 0.20 La
		8448296394		W/o Shri Avtar Singh	thereafter		V U.EU EU
5.	Gulmohar	Ms. Sneh Mirchandani M. No.	Mrs Archana	RZ-2690/29, Gali No 29, First & Second Floor,	on 30.09.2020	02.09.2022 (Physical)	₹ 37.00 La
	Park, New Delhi		ani Choudhary	Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019 carpet area			₹ 3.70 Lac
		8448296394		41.14 sqmt per floor, Owner Mrs. ArchanaChudhary w/o Mr Praveen Choudhary			₹ 0.50 La
6.	Gulmohar	Ms. Sneh	Mr.Suman Singh &	3" Floor, Without roof rights (Front Right Side.) Property	Rs.18,66,225/-	06.12.2023	₹ 25.20 La
٥.	Park, Mirchandan New Delhi M. No.	Mirchandani	Mrs.Priya	No RZ 902 , Gali No 23 , Toghlakabad Extension colony	on 30.10.2022 + Interest	(Physical)	₹ 2.52 La
			CHEVISA IC	,New Delhi - 110019, in name of			₹ 0.20 La
		8448296394		Mr. Suman Singh Measuring Area 80.00 Sq. Yard	thereafter		( U.20 La
7.	Park, M New Delhi	Mirchandani	Mrs. Bhawna Bharti	Flat No. RZ-2690/29, 3rd floor, (backside portion without	on 30.06.2022	16.04.2024 (Physical)	₹ 17.50 La
1			& Mr. Mahinder Bharti	roof rights), Gali no. 29, out of Khasra no. 415, along with			₹ 1.75 La
				one common scooter parking, TughlakabadExtn, Delhi- 110019 Measuring 41.67 sq. mtrs in the name of			₹ 0.20 La
				Mrs. Bhawna Bharti & Mr. Mahinder Bharti			
8.	Park, Mir New Delhi	Ms. Sneh	lani Mr. Rejmon George	Residential Flat on 3rd floor , Plot no RZ-750, Gali No 23,		01.04.2021 (Physical)	₹ 30.50 La
П		Mirchandani M. No.		Khasara No 443/2, Tuklakabadextn , New Delhi , covered			₹ 3.50 La
		M. NO. 8448296394		area of 3rd floor flat -83.34 sqmtrs or 900 sqft in the name of Mrs. Biji Regi			₹ 0.30 La
9.	Shahbad Moh. Pur New Delhi	Shri Vikas Kumar M No.: 9414094940		2nd floor without roof rights built on property no 86-B out	on 20.04.2022	04.03.2023 (Physical)	₹ 15.80 La
ï				of Khasra no 104/2/2, situated in the area of Vill- Palam colony known as Rajapuri, Block A1, Uttam Nagar, New			₹ 1.58 La
П				Delhi measuring area 50 sq.yds in the name of			₹ 0.20 La
Ц				Mr Sushil Kataria S/o Mr. Rajender Singh			
10.	New Delhi Saxena Mob. No	Saxena	Puja Enterprises		Rs.39,59,335.64	10.02.2023 (Physical)	₹ 3.85 La
ï				Floor Property R-22 Out of Khasra No.473 Building			₹ 0.38 La
		9711167140		Khaneja Complex Shakarpur, Village Mandawali Fazalpur Delhi-110092,			₹ 0.20 La
11.	New Delhi S	Mr. Mansvi	Puja Enterprises	Shop No.317 Part of Old Office No. 10, 11, 12 On Third	on 29.03.2019	10.02.2023	₹ 17.00 La
		Saxena	axena ob. No.:	Floor Property R-22 Out of Khasra No.473 Building		(Physical)	₹ 1.70 La
П		Mob. No.: 9711167140		Khaneja Complex Shakarpur, Village Mandawali			₹ 0.20 La
12.	Janpath	Mr. Sushil	Rakesh Kumar &	Fazalpur Delhi-110092. LIG Flat No. G-3 (Without Roof Rights), Ground Floor,		07 42 2024	₹ 17.00 La
-	New Delhi	Chaturvedi M. No. 9999917105	Chaturvedi Smt. Anita Devi M. No. 9999917105	Plot No.222, Shalimar Bagh Extr. 1, Vill.	Rs.17,09,512/- on 06.01.2017 + Interest thereafter	07.12.2021 (Physical)	₹ 1.70 La
				Pasonda, Ghaziabad, UP-201005,			₹ 0.20 La
				in the name of Mr. Rakesh Kumar & Mrs. Anita Devi			A MARKETON IN
13.	Malviya Nagar, New Delhi	Mr. Inder Bairwa M. No. 8054120610	M. No.	Residential house No 1460(EWS), Housing Board, Sector-23, Sub Tehsil Gauchi , Distract Faridabad ,	Rs.17,71,030/- on 28.02.2023 + Interest thereafter	31.07.2024 (Physical)	₹ 17.50 La
				Haryana measuring 267.00 sq.ft.			₹ 1.75 La
				in the name of Mr. Rahul Sharma			₹ 0.20 La
14.	Panchsheel Park,	Mr. Digvijay	Mr.Yogesh Kumar	Residential flat at Khasra No 1708, 3rd floor. Flat no D-2,	on 31.03.2024	09.10.2024 (Physical)	₹ 20.00 La
14.		Singh		Paradise Apartment, Aya Nagar, New Delhi-110047			W
14.	Park, New Delhi	Singh M. No.		Measuring area 800.00 sq.ft,	+ Interest	(Filysical)	₹ 2.00 Lad

E-AUCTION DATE: 26.32.2024, TIME: 3.300 NOON TO 05:00 PW WITH AUTO EXTENSION OF 3 MINUTES

Last Date & Time of Submission of EMD and Documents (Online) On or Before: 26.12.2024 Uplo 5:00 PM, Bidder will register on website:
https://BAANKNET.com and upload KYC documents and after verification of KYC documents by the service provider, EMD to be deposited in
BAANKNET EMD waite through NEFTIRTGS/Transfer / Generation of challan from (https://BAANKNET.com). The auction will be conducted
through common landing platform e-Bikray Orfard (https://BAANKNET.com). E-auction will be held "As is where is", "As is what is" and
"whatever is there is" basis, (All other charges/dues to the property will be borne by the purchaser).

For detailed terms and conditions please refer to the link provided in www.centralbankofindia.co.in Secured Creditor or auction platform (https://BANKNET.com). Helpdesk: (431)8291220220, E-mail: support.BANKNET@sballiance.com

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Borrowers@Garantors! Mortgangs are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of eunderstanding the property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

PARES TO SECONA.





# financialexp.epapr.in

## कुप

# कैमको फूड कंपनी के मालिक पर केस

इंदौर। लसुड़िया पुलिस ने एक कंपनी को नुकसान पहुंचाने के मामले में उद्योगपति संजय जैसवानी सहित आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर की है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल, ए वसंत में रहते वाले गौरत अहलातत ते शिकायत की शी। बता टे गौरव अहलवात रूस के नागरिक हैं। उन्होंने पहले पलिस के वरिष्ठ अफसरों से शिकायत की थी। लेकिन. सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने रीगल पर अनशन केंग्रा था। बाट में कोर्ट की तरफ से आदेश हआ है। संजय जैसवानी, निवासी ए वसंत विहार कॉलोनी लसुड़िया, विजय जैसवानी, सेवटर ए वसंत विहार कॉलोनी, संजय कलवानी, निवासी अन्नपूर्णा मदिर पार्थनाथ अन्नपूर्णा, दिनेश मनवानी, निवासी युनिक पार्क राजश्री, विजयनगर नितिन जीवनोनी निवासी गोल्डन पाम खालसा चौक स्कीम १३६, कंचन जीवनानी, निवासी डायमंड चौराहा गोल्डन पाम निरंजनपुर लसुडिया, फुड कंपनी के मालिक है जेसवानी संजय जैसवानी औ उनके गार्ड कैमको फड कंपनी के मालिक है। उन पर पहले सीए नाहर को कंपनी में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए बधंक बना लिया था। इस मामले में पुलिस ने जेमवानी और उनके गार्ड पर बधक बनाने के मामले में

### डंजीनियर के फ्लैट में घुसे चोर, जेवर-नकदी ले गए

इंदौर। एरोड्न इलाके में तीन पलैटों के ताले टूट गए। चीर एक प्रलैट से आभव । और नकदी लेकर फरार हो गए। मुलिस के मुताबिक दो पलैटों में ताले टूटे लेकिन चीर यहां खे कुछ नहीं ले जा पाए। पुलिस ने तीनों मामले में पोरी का केस दर्ज किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेन के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एरोइन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, राजीव सोनी पुत्र इंद्रकुमार सोनी पेशे से इंजीनियर है। वह छोटा बागड़दा में शेलपुत्री योलेटर तरीसत बिटी में 11लेट तंबर 103 में रहते हैं। 7 दिसंबर को शादी में पत्नी प्रगति और बेटी को लेकर भोपाल गए। सोमवार ९ दिसंबर को सुबह उन्हें बिल्डिंग के अन्य पलैट में रहने वाले नितिन यादव का कॉल आया। उसने बताया कि घर में चोरी हो गई है। इसके बाद राजीव परिवार को लेकर शाम में भोपाल से इंदौर पहुंचे। अंदर घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। आरोपी ने बच्ची की सोने की हारा, तीन जोड पायल, पत्नी के कुछ आमूष ा, नकदी और रुपए चराकर ले गए।



### रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए फ्लो इंदौर का अनुटा प्रयास

इंदौर। पलो इंदौर ने गैंड शेराटन में क्रिएटिविटी इनसाइड नामक एक आकर्षक कार्यशाला का आयोजन किया प्रसिद्ध मार्केटिंग विशेषज्ञ, डॉ. संजय अरोरा द्वारा किए गए इस कार्यशाला का उद्देश्य, हर सदस्य के भीतर रचनात्मकता को बहावा देना था। १४० से अधिक पली इंदौर सदस्यों ने इस इंटरैक्टिव सत्र का आनंद लिया। इस कार्यशाला का सफल संचालन संचक्त सचिव. सश्री रिचा वजवतामा का शक्क स्वारंत ह्याएग हुआ एवा मचेती ने किया, सार ही सीएरआर प्रमुख, सुश्री रचना नितल और जुनियर वाइच वेयर, सुश्री वटना गुजराती की उपस्थित ने कार्यक्रम को और भी विशेष बनाया डॉ. अरोरा ने इस बात पर और दिया कि रचनानक्कता केवल कलाकारों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्व कला है। उन्होंने समझाया कि जीवित और सांस लेने वाला हर व्यक्ति रचनात्मक होने की थमता रखता है। आकर्षक अभ्यास और ववाओं के माध्यम से, उन्होंने सदस्यों को पुरानी सोच से मुक्त

# महाजन के पोते से मारपीट के आरोपियों का जुलूस निकाला

इंदौर(नप्र)। सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ करने और उनके पोते सिद्धार्थ महाजन से मारपीट करने वालों का मंगलवार को पुलिस ने जुलूस निकाला। मामले का मुख्य आरोपी दर्जा प्राप्त मंत्री प्रताप करोसिया का भतीजा सौरभ करोसिया व अन्य साथियों को पुलिस मिलिंद महाजन के नेमावर रोड़ स्थित शोरूम पर ले गई। वहां उनसे उठक-बैठक लगवा कर माफी भी मंगवाई। पुलिस अब पकड़े गए चारों आरोपियों का इनके गृह क्षेत्र राज मोहल्ला ले जाकर जुलूस निकालेगी। मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी की तबीयत ठीक नहीं होने से वह अस्पताल में भर्ती है।

इस पुरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेता और ताई समर्थक सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मिले थे। आरोपियों कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए



उनका जुलूस निकालने की मांग की थी। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी पुलिस कमिश्नर से बात की थी।

वहीं ताई समर्थक इस पुरे मामले को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले थे, लेकिन अब बुधवार को सीएम डॉ मोहन याटव से मिलेंगे। इंटीर

स कमिश्नर ने कहा कि, 6 में से 5 आरोपियों को पकड लिया गया है। इनमें से किसी की भी आपराधिक रिकॉर्ड पाय जाता है तो उसके अनुसार भी कार्रवाः की जाएगी। इस मामले में एसआईटी भी बनाड गर्ड है। एक आरोपी अभी फरार है। उसे भी जल्द प्रकट लेंगे।

स्टूडेंट के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्रीलता के मामले में केस दर्ज

किया है। महिला का आरोप है कि

आरोपी लड़के आए दिन हॉस्टल

में शोर मचाते है। कुछ दिन पहले उन्होंने हॉस्टल के रूम से बाहर

आकर अश्रील हरकत की। आधे

कपड़े उतारे और डांस करने लगे। इसके बाद सोमवार को फिर से वहीं

हरकत की। महिला के मुताबिक आरोपी आए दिन अश्लील हरकतें

करते है। इसे लेकर थाने में

शिकायत की गई है।विजय नगर

पिलस ने स्कीम नंबर 74 में रहने

वाली 31 साल की एक महिला की

शिकायत पर पर लक्की बॉयज

हॉस्टल के तीन लड़कों के खिलाप

छेडछाड और अश्रीलता के मामले

में केस दर्ज किया है।

#### वाहन चोरों की गैंग धराई हॉस्टल स्टूडेंट्स ने अर्धनग्न होकर डांस किया इंदौर। विजय नगर पुलिस ने निजी होस्टल में रहने वाले तीन



इंदौर (नप्र)।संयोगितागंज पलिस ने वाहन चोरों की गैंग पकड़ी है। आरोपी दवा बाजार और आसपास से वाहन चुराते थे। पुलिस को सचना मिली थी कि बंदमाश पार्किंग में खंदे सूचना ामला या कि बदमारा पाकिंग में खड़ वाहनों के ताले तोड़कर उसे ले जाते है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को पकड़ा है। बदमाशों के पास से चोरी की करीब 15 गाड़ियां बरामद हुई है।

एसीपी तुषार सिंह की टीम ने संयोगितागंज में चार वाहन चोरों को पकड़ा जानकारी के मुताबिक इस मामले में

डागडे में 13 साल की बच्ची के कपडे फाडे

इंदौर (नप्र)। बा गगा में ओटला तोड़ने के विवाद में पड़ोसियों के बीच झगडा हो गया। झगडा ऐसा हुआ कि एक पथ में दूसरे पथ की

13 साल की बच्ची के सड़क पर कपड़े फाड़ दिए, वहीं महिलाओं ने पत्थर बरमाकर तोडफोड भी की है। बा ागंगा शांते में एक महिला की शिकायत पर आरोपी राधा पाल के जीना और उसकी बहन के खिलाफ अलग-अलग गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपी कुशवाहा नगर के रहने वाले हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राधा पाल उसके घर आई और उसके घर के सामने बने ओटले

को तोडने लगी। उसने विरोध किया तो आरोपी झगडे पर उतारू हो

गई। पीड़िता की 13 साल की बेटी घर के बाहर निकली तो आरोपी राधा के जीजा ने उसके बाल पकड़ कर खींचे और बुरी नीयत से उसके कपड़े

फाड़ दिए । जैसे-जैसे अपनी बच्ची को घर के अंदर किया तो आरोपी पर के दूसरे लोग भी आ गए और उन्होंने ईट प्रत्यर फेंकना शुरू कर दिए।

डस हमले में पीडिता के घर पर जमकर तोडफोड भी हर्ड हैं। बताया जा रहा है दोनों पक्षों के बीच ओटले को लेकर कई दिनों से झगड़ा चल रहा

दीपक पत्र राजा चौहान और उसके साथी मोहित व अन्य दो साथियों को पुलिस के जवानों ने हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि आसपास के बाजारों से आरोपी गाड़ी चुराते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपियों से अभी करीब 15 वाहन मिले है। वह कई माह से शहर में चोरियां कर रहे थे। आरोपियों ने पीथमपुर और भंवरकुआ इलाके में कवाड़ियों को भी गाड़ी बेचने की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से उक्त वाहनों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

## कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

স্ক্রান্তর্গন কর্মান ক্রমান কর্মান কর্মান

3f TK.	कॉलोनाईवर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुसति जारी की गई है	धरोहर के कप में बंधक रखे गये भूखणड़ों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रीम्मार्थी (1) मेराव पिता रामिर्धेट्ट (2) मीराव पिता रामिर्धेट्ट (2) मीरावी अध्यापना प्रामेश्वेट पति मंत्राव प्रमेशेट पति मंत्राव प्रमेशेट पति मंत्राव प्रमेशेट पति मंत्राव प्रमान्य पति मंत्राव प्रमान्य पत्राप्तान्य पत्राप्तान्य पत्राप्तान्य पत्राप्तान्य प्रमान्य पत्राप्तान्य पत्रापत्रान्य पत्रापत्रापत्रापत्राम्य पत्रापत्रापत्रापत्रापत्रापत्रापत्रापत्रा	보다 - '' 보다 한 - '' 보다 - '' 보다 - '' 보다 한 - '' 보	चेरकामा पेकीवारण प्रान्तीक एएनी 1791302042(13)19254 पेडीर रिलोक 13-11,12024 के प्राप्तान प्रान्तिक 55 से 46, 42 से 47, 48 से 42, 52 से 72, 73 से 97, 296 से 73, 53 से 50, 395 से 40, 41 से 74, 52, 41 से 75, 50 से 50, 50 से 628, 666 से 487, 490 से 643 प्राप्तान 2009, 73 200 प्रधान्य विशवत प्रसाद विशवत प्रसाद विशवत प्राप्तान 2009, 73 पार्टिट पृथ्वि के हैं।

#### कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्टीर (स.प.)

क.१६२६/म.स.री./मा.से./२०२४ विद्यादित सम्बद्धेत पोकास राज वर्त प्राप्त समाप्त अधिनित्स १००३ इन्टीर, विश्वेष: 10.12.21

¥ 死.	कॉलोनाईंजर का श्रम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के सप में बंधक रखे गवे भूखण्डों का विकास
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पंपितवारी- (1) बीमारी- सारिक्टी पति रूपाम परकारी- (2) बीमारी- राज्याम परकारी- (3) बीमारी- कारी-प्रकारी- कारी-परकारी- कारी	प्राप्त पुर्वास कुरार्थ, स्वामीत शर्मार, शिवास कुरीय रिवास प्रति प्राप्त कर्ष 1,007 र प्रवास 1,422 कि.स., 104.17 प्रवास 0.179 कि.स., 104.17 प्रवास 0.179 कि.स., 104.17 प्रवास 0.379 कि.स., 104.27 प्रवास 0.399 कि.स., 1114.27 प्रवास 0.399 कि.स., 1114.27 प्रवास 0.399 कि.स., 1114.27 प्रवास 0.399 कि.स., 1114.27 प्रवास 0.399 कि.स., 1134.27 प्रवास 0.399 कि.स., 134.27 प्रवास 0.359 कि.स., 134.27 प्रवास 0	पंत्रकारायः प्रमोक्तः प्रमाने । प्रमोने 17913-2024 प्रमोने 17913-2024 प्रियोग्धाने इति विकासिक्ता । प्रियोग्धाने इति विकासिक्ता । प्रमाने प्रमाने । प्रमाने ।

# कांग्रेस की पार्षद-पति को पीटा

रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, पास की टेबल पर बैठी युवती-युवकों से हुआ था विवाद

इंदौर। विजय नगर में सोमवार रात वार्ड 46 से कांग्रेस की पार्षद और उनके पति के साथ मारपीट हो गई। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। इस दौरान नजदीक की टेबल पर बैठे तीन युवक और युवती ने उनके साथ मारपीट की। बाद में वह थाने पहुंची और आरोपियों पर केस दर्ज कराया।

विजय नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना स्कीम नंबर 54 के गुरू कृपा रेस्टोरेंट की है। यहां पर शैफाली शेफू वर्मा पति आकाश वर्मा निवासी सोमनाथ की चाल अपने पति, भाई और बेटी के साथ रात में करीब 11 बजे खाना खाने पहुंची थी। नजदीक की टेबल पर तीन लडके और एक लडकी बैठे थे। चारों मोबाइल पर किसी से अपशब्दों का उपयोग कर

बात कर रहे थे। शेफु वर्मा और उनके पति आकाश ने चारों को अपशब्दों के इस्तेमाल पर टोका और कहा कि यहां पर इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। इस बात पर वह नाराज हो गए और उन्होंने महिला

### शादी में नाचने की बात पर विवाद

इंदौर (नप्र)। ग्रामी ा अंचल में शादी समारोह में नाचने की बात पर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। उसके घर में घमकर जमकर तोडाकोड की और मारपीट भी की। शिप्रा थाने मे फरियादी डंदर उर्फ डंदौरी. मालवी पिता रामचंद्र निवासी ग्राम परसपुर की शिकारात पर आरोपी विशाल सोलंकी, जितेंद्र सोलंकी, कु ाल सोलंकी, कमलाबाई और संगीता सोलकी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में प्रकर । दर्ज किया। दोनों ही पथ ग्राम परसपुर में रहते हैं।

# न्वायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी जूनी इंदौर क्षेत्र जिला इंदौर, (म०प्र०)

KATARIA INDUSTRIES LIMITED

पार्षद और उनके पति को अपशब्द इस मामले में पार्षद के पति कहना शुरू कर दिए। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आरोपी आकाश वर्मा ने कहा, रात में पत्नी शेफ़ु और बच्चों के साथ खाना कहने लगे कि वह बीजेपी के लोग हैं। इसके बाद चारों ने पार्षद और खा रहे थे। पास की टेबल पर बैठे युवक-युवती अपशब्दों का प्रयोग उनके पति के साथ मारपीट कर कर रहे थे। उन्हें मना किया तो दी। होटल स्टाफ ने बीच-बचाव आरोपियों ने मुझ से हाथा पाई की। इसके बाद होटल का स्टाफ आया और उन्हें अलग किया। किया होटल में भीड़ होने के चलते आरोपी वहां से जान से मारने की धमकी देकर चले गए। करीब 10 मिनट बाद वह यहां आरोपी रेस्टोरेंट के बाहर बाइक छोडकर गए हैं। पुलिस बाइक से चले गए। बाद में पुलिस को जानकारी दी। थाने में जाकर थाने ले गई है। रात में महिला पार्षद अपने पति के साथ थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। केस दर्ज कराया है।

करेस दंत फराया छ।

ब्राव्यांस्य प्राकृतिकारीय प्राविकारी वास्तव प्राकृत्वक मुद्दी करीर (ब.स.) (व्यव कर्षण ३४४ करील करीरण तिकार देश) (व्यव कर्षण ३४४ करील करीरण तिकार देश) प्रावेश, १९८० व्यव इंग्लेस प्रकृत करीरण ३५० व्यव इंग्लेस प्रकृत करीरण ३५० व्यव विकार विकार करायां करीरण ३५० व्यव विकार विकार प्राविकार व्यव इंग्लेस विकार व्यविकार विकार प्राविकार विकार विकार विकार विकार विकार प्रतिकार विकार विकार विकार विकार विकार प्रतिकार विकार विका

# रिदम चौरडिया

पुलिस मामले में आरोपियों की

नाम परिवर्तन

से पूर्व मेरा नाम विद्यम राजेडकुमार जैन राजेडकुमार जैन था। साधी के बाद मेरा रिदम चौरडिया पति यस

चौरिडिया हो गया है। उन्हा दोनों नाम हक ही

व्यक्ति के हैं अरु मुझे वर्तमान तथा भविष्य में रिदम चौरडिया पति यश चौरडिया

के नाम से ही जाना पत्रधाना जाए

पहचान में ज़ुटी है।

#### कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति जावरा, जिला-रतलाम (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सचना

प्रमुख अभिषेता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एक्कीकृत पंजीवन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारी से प्रतिशत दर आधार पर 2024 MPSAM\_38696\_1 2024\_MPSAM\_386970\_1, 2024\_MPSAM\_386971\_1 के अंतर्गत सिस्टर-निविदाएँ क्रमांक ऑनलाईन निविदाएँ दिनांक 11.12.2024 समय 10.30 से दिनां 31 12 2024 को साथ 5:30 बाजे तक आंग्रजित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन ानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल htt ders.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी, एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जा मंडी बोर्ड के पोर्टल http://www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय

...... १७८ लग २५ उपराक । नावदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधः सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किय जावेगा। . नोट:-आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोध

कषि उपज मण्डी समिति, जावरा

कृषि उपज मण्डी समिति, जावरा

CIN: U27300MP2004PLC029530 Registered Office: 34-38 and 44, Industrial Area, Ratiam (M.P.)- 457001 Email: cs@katriagroup co.in; Web: www.katariaindustries.co.in; Phone: +91 7412 299407

मणी अरिमिण्य 2013 ("अरिमिण्य") की घाना 108 और 110 के प्रमायनों और करनी (प्रशंसन और जाताना) 2014 (समस बोरिका) ("मिन्या") के मियानों के मित्य 20 और 22 के तथा परिश्त करूर राष्ट्र प्रवासकों, वर्ष कोई हो, और कोई के विशेष्टर 44 लिला और मान्योंक्ता आवारकारां) विशेष्टर, 2015 (सोई लिसिंग्डर) मिरियान) और बाय कुराकुन कोई विशियान, के अनुसार न हों, के कारतीय वाह महाने कि सिन्देंद ("स्थान्त "के कारवारी का अनुसारण पोपाना केरेंद्र और पीरियान, के अनुसार न कोंद्र इनेक्ट्रियोंक्त बोरिका (पेलेट दे-बोरिंग) के साम्या से दिशंक 08 दिसंबर, 2024 के पोराता बेटेन की सुकता में सारा पर विशेष्ट

निर्देश हैं कि प्रश्निक बीटिए (मिर्ट ६-बीटिए) के बाद्यान से दिलांक 06 दिलांकर, 2024 के पोस्टल कैंटर की जून में बातर वह दिलें का बादों के वित्त वाल कैंट का वाल किंद की किंद की किंद का वाल किंद की किंद की किंद का वाल किंद की किंद की किंद की किंद का वाल किंद की किंद क स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

क्षक पतन्त्र का परिचाम शोगवार, 13 जनवरी, 2025 को या उनसे पहले कंपनी के पंजीकृत कराजिय में घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.katariaindustries.co.in पर गी पोस्ट किया जाएगा और उसी दिन स्टींक एक्लफेंज, चीनस्टार और सैयर ट्रांसकर एजेंट और ई-

संदित एकेको के पुरित किया जाएगा।

किया चरण को पोतान के देश रेडिय पड़ित के इस cas@stateriagroup ooi or है -पेम पंच साला है सा evoling@nadi.com पर
NSDL को क्रारेश कर पोरास केट नीटिय की उसी उस स्वकार है। पोरास केट नीटिय की क्रारा अपने की केटाइट
www.lateriachustriac.com को कोई -सीटिय की उसी उस स्वकार केटाइट कर केटाइट केटाइट केटाइट केटाइट केटाइट केटाइट केटाइट केटाइट केटाइट

# क्युआर कोड से भी बिजली बिलों के भुगतान किया जा सकेगा

एमडी सुश्री रजनी सिंह ने प्राथमिकताएं बताई, समय पर कार्य करने का किया आह्वान

इंदौर। पश्चिम क्षेत्र विद्यत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक (एमडी) सुश्री रजनी सिंह ने मंगलवार को 15 जिलों के बिजली अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा विभाग एवं बिजली कंपनी की प्राथमिकताओं पर हर अधिकारी खरा उतरने के लिए अधिकतम प्रयास करे इस बारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

. सुश्री रजनी सिंह ने मीटर सुत्रा रजाना सिंह ने माटर टेस्टिंग, स्मार्ट मीटर, वाणिज्य संकाय, विजिलेंस, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, कार्य संकाय,मानव संसाधन संकाय इत्यादि की समीक्षा की। उन्होंने किसान उपभोक्ताओं के अंशदान को समय पर वसूली के लिए, ट्रांसफार्मर फेल रेट घटाने के लिए, आरडीएसएस एवं एसएसटीडी के कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। एमडी ने कहा कि कहा कि गुणवत्तापूर्ण आपर्ति एवं समय पर राजस्व संग्रहण शासन की प्राथमिकता हैं, अतः क्षेत्र विशेष, उपभोक्ता विशेष चाहिए, अपित पुरानी बकाया



प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया कि संबंधित मख्य अभियंता अपने रीजन के एवं अधीक्षण अभियंता अपने जिले, सर्कल क्षेत्र के विद्युत संबंधी समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के वास्तविक लोड की गणना होना चाहिए, जिन उपभोक्ताओं के बिल में लोड कम , खपत ज्यादा है, वहां का नियम और तय प्रक्रिया के अनसार लोड बहाए। उपभोक्ता सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से संबंद्ध उपभोक्ताओं की यदि बिजली बकाया राशि होने पर आटोमेटिंग कटती है, तो कैशलेस तरीके से बिल जमा करने के कम समय में

निदेशक ने बताया कि आगे जाकर कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा क्युआर कोड से बिल भरने की सुविधा लाएगी। पेमेंट लिंक पर क्लिक करते क्यूआर कोड खुलेगा, जिसमें बिल राशि का उल्लेख होगा, कुछ देर में ही बिल जमा हो जाएगा एमडी सुश्री रजनी सिंह ने इस अवसर पर सीएम हेल्प लाइन. ऊर्जस सेवाएं, कॉल सेंटर 1912, समाधान, रूफ टॉप सोलर नेट मीटर योजना, 11 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे मुख्य मंत्री जनकल्याण अभियान की तैयारी इत्यादि विषयों पर कार्ययोजना, प्रगति पर चर्चा की।सुश्री रजनी सिंह ही ऑटोमेटिंक रूप बिजली पुनः जुड़ रही है। उपभोक्ताओं को जोन ने रबी सीजन के दौरान जिलों में की गई तैयारी पर संतोष जताया।

करतां कालमा नबर-4 में क्लॉबिंग 251 पूर्वतं इस कार्योलय में चरोहर के रूप में बंधक रहे गरे हैं अरह: प्रसंस्थारण को सूर्विक किया जात है कि उपरोक्त पूर्वतं का क्रस-नेक्कर आहारी और कर कार्यों निक्य कार्यार। ( सक्षम क्रमिकतरों द्वारा स्वीकृत) अपर कलेक्टर कॉलोनी सेल शासा, जिला-इंदीर